

नविश के परविश पर कसिका असर

संदर्भ

गौरतलब है कि अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) द्वारा जनवरी 2017 के आरंभ में विश्व आर्थिक पूर्वानुमान जारी किये गए थे। आईएमएफ द्वारा जारी किये गए पूर्वानुमानों से यही संकेत मिलता है कि वैश्विक अर्थव्यवस्था में धीमी गति से सुधार नज़र आ रहा है जो कि वर्तमान संदर्भ में राहत का संकेत है। सभी प्रमुख अर्थव्यवस्थाएँ एवं उनसे संबद्ध आर्थिक क्षेत्रों में वर्ष 2016 की तुलना में वर्ष 2017 और 2018 में अधिक तेज गति से वृद्धि होने की संभावनाएँ व्यक्त की जा रही हैं।

महत्त्वपूर्ण बढि

- जैसा की हम सभी जानते हैं कि वर्ष 2008 के वित्तीय संकट के पहले नविश गतिविधियों का वैश्विक वृद्धि में अहम योगदान था।
- इस संबंध में विश्व बैंक द्वारा प्रदत्त आँकड़ों का अध्ययन करने पर ज्ञात होता है कि वर्ष 2003 से 2008 के मध्य की पाँच साल की अवधि में नविश दर में सालाना 12 फीसदी की दर से वृद्धि दर्ज की गई।
- हालाँकि, वर्ष 2015 में यह दर घटकर मात्र 3.4 फीसदी ही रह गई। स्पष्ट है कि वर्ष 2010 के बाद से नविश की वृद्धि दर हर वर्ष नरितर घटती ही जा रही है।

नविश की इस गरिती दर के प्रमुख कारण

- वस्तुतः नविश की इस धीमी गति को समझने के लिये विभिन्न देशों में नविश के मौजूदा स्तर और उसके दीर्घावधि के औसत की तुलना करनी होगी।
- जैसा की हम सभी जानते हैं कि वर्ष 2006 में जब यह नविश चक्र अपने उच्चतम स्तर पर था, तब विश्व के समस्त देशों में से तकरीबन 70 फीसदी देशों की नविश संबंधी गतिविधियाँ सामान्य के स्तर से ऊपर थीं।
- हालाँकि, बाद में कमोबेश नविश की वृद्धि के संबंध में प्रस्तुत किये गए तमाम अनुमान वफिल होते प्रतीत होने लगे। स्पष्ट है कि इन अनुमानों का परणाम भी नकारात्मक ही हुआ।

नकारात्मक वृद्धि के कारण

- सर्वप्रथम, वर्तमान के आर्थिक परिदृश्य पर एक नज़र डाले तो हम पाएँगे कि पिछले कुछ समय से वैश्विक अर्थव्यवस्था में दैनिक सुधार आ रहा है तथापि अभी भी इस संबंध में वृद्धि दर वित्तीय संकट के पहले तय की गई मानक दर के आसपास भी नहीं पहुँच पाई है। स्पष्ट है कि इस परिदृश्य में नविश संबंधी गतिविधियों का धीमा होना तय था।
- दूसरी कारण यह है कि मौजूदा ऊर्जा और जसि कीमतों के परिदृश्य के संबंध में नज़र डाले तो हम पाएँगे कि इन वस्तुओं का नरियात करने वाले देशों द्वारा अर्थव्यवस्था की नई क्षमताओं में नविश काफी कमज़ोर हुआ है।
- हालाँकि, हाल के दिनों में जसि कीमतों में कुछ तेजी अवश्य देखी गई है लेकिन यह तेजी भी मांग में सुधार की वजह से नहीं है बल्कि यह नरियातकों द्वारा आपूर्ति कम करने के परिणामस्वरूप उत्पन्न हुई है। स्पष्ट है कि यह परिवर्तन नए नविश के लिये अनुकूल स्थिति उपलब्ध नहीं कराता है।
- इस नकारात्मक वृद्धि का तीसरा कारण है विश्व के कई देशों की वित्तीय क्षेत्र की स्थिति। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि वर्तमान समय में मौजूद परसिंपत्ता गुणवत्ता की समस्याओं और बढ़ी हुई पूंजी आवश्यकता ने वित्तीय तंत्र की जोखिम उठाने की क्षमता को बुरी तरह प्रभावित किया है।
- यहाँ यह स्पष्ट करना अत्यंत आवश्यक है कि यदि इस संबंध में मांग में वृद्धि हुई भी है तो भी पर्याप्त नविश के कारण आपूर्ति की समस्या ज्यों की त्यों बनी रही। हालाँकि वर्तमान समय में यह समस्या मात्र नविश हेतु पूंजी की कमी न होकर अन्य महत्त्वपूर्ण मुद्दों से भी संबद्ध है।
- स्पष्ट है कि जब भी नविश संबंधी गतिविधियों में इज़ाफा होगा इस प्रकार की समस्याएँ मुहँ बाये खड़ी रहेंगी।
- वस्तुतः इसके दो अन्य कारक हैं। पहला कारक यह है अधिकतर पूंजी प्रोत्साहन वाले उद्योगों में अतिरिक्त क्षमता की मौजूदगी न होना तथा दूसरा कारक है साझा अर्थव्यवस्था का तेज गति से विकास न हो पाना।

क्या इस संबंध में नीतगित उपायों की आवश्यकता है?

- यदि इस संबंध में नीतगित दृष्टि से देखें तो सबसे महत्त्वपूर्ण प्रश्न यह उठता है कि आखिर इन नविश गतिविधियों को बल कैसे प्रदान किया जाएँ क्योंकि यदि हम धीमी वृद्धि दर और जसि कीमतों, तनावग्रस्त वित्तीय तंत्र और गैरजरूरी क्षमताओं के इस्तेमाल की बात करते हैं तो नविश के लिये एक अलग तरह का माहौल तैयार होता है।
- संभवतः ऐसी कसि भी स्थिति में यह स्पष्ट करना अत्यंत कठिन हो जाता है कि केवल ब्याज दर और कर प्रोत्साहन जैसे पारंपरिक तरीके ही नविश को

- बढ़ावा दे पाएंगे या इससे इतर भी कुछ अन्य कदम उठाने की आवश्यकता है ।
- ऐसे में प्रश्न उठता है कि ऐसा करने के लिये कोई नीतगित उपाय करना चाहिये अथवा नहीं?

नषिकर्ष

- वस्तुतः इस संबंध में केवल हम ही नहीं वरन् जहां नीतनिर्माता भी इन सवालॉ से जूझ रहे हैं । जहाँ एक ओर बुनयिदी ढांचागत क्षेत्र की मूलभूत आवश्यकताएँ है वहीं दूसरी ओर तात्कालिक रूप से नयिमन को सुसंगत बनाने की भी आवश्यकता है ।
- इसके अतरिकित यदी इस क्षेत्र में नविश दर में बढ़ोतरी नहीं की जाती है तो बुनयिदी क्षेत्र में नविश करना पहले की अपेक्षा और भी अधिक जोखमिपूर्ण कार्य साबति होगा ।
- स्पष्ट है कि ऐसी स्थिति में हमें एक ऐसा वत्तीय ढांचा विकसति करने की आवश्यकता है जो न केवल इस जोखमि को झेल सकें बल्कि इसके परणामों को भी साझा कर सकें ।
- हालाँकि, इसके लिये आवश्यक है कि नविश के कमजोर रुझान से इतर सरकार को कुछ ऐसे नीतगित उपाय अपनाने चाहिये जो सुधार की प्रक्रिया को ज़रूरत के मुताबकि तेज करने के साथ-साथ विकास की वृद्धि दर में भी इज़ाफा कर सकें ।

PDF Refernece URL: <https://www.drishtias.com/hindi/printpdf/whose-impact-on-investment-environment>

